

**February 18, 2026**

To,  
Listing Compliance Department  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai- 400051  
**Symbol: SAMBHV**

To,  
Listing Compliance Department  
BSE Limited  
P J Towers, Dalal Street,  
Mumbai - 400 001  
**Scrip Code: 544430**

**Sub: Newspaper Advertisements regarding dispatch of Postal Ballot Notice and E-voting related matters:**

Dear Sir / Madam,

Please note that in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with allied Rules and applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, from time to time, the public notice, intimating about the dispatch of Postal Ballot Notice dated February 17, 2026 and regarding information on remote e-voting and related matters, has been published by the Company in English in “ Business Standard” (an English language national daily newspaper) and in Hindi in “Amrit Sandesh” [a daily newspaper published in regional language (i.e., Hindi)], on February 18, 2026. Copies of the said public notice by way of newspaper advertisements are enclosed, for your information and record. You are requested to take note of the above. This disclosure is being simultaneously uploaded on the website of the Company, <https://www.sambhv.com/investor-information.php> .

This is for your information and records.

Thanking you,

**For, Sambhv Steel Tubes Limited**

**Niraj Shrivastava**  
**(Company Secretary and Compliance Officer)**  
**Membership No. F8459**






## रणजी सेमीफाइनल में शमी का कहर , आठ विकेट लेकर चयनकर्ताओं को दिया करारा जवाब

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) // ईश्वरहार // क्रमांक/20260211550032/अ-6/मार्च 2025-26 ग्राम खमतरा, प.ह.नं. 38, रायपुर, दिनांक 13/2/2026	न्यायालय नजूल अधिकारी कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) (उद्योगाणा) रा.प्र.क्र./202603/400400037 / अ-6/2025-26 एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक ईश्वर चंद साहू पिता बलदेव राम साहू निवासी अन्नापारा कांकेर के द्वारा मोहल्ला माहुरदंगरा कोन में स्थित भूमि शीट नं. 11 सी, प्लॉट नं. 2-3/1, क्षेत्रफल 23690.53 वर्ग मी., खेत, भू भातक 62.00 वर्ग, विद्युत्सरो जमी पति स्व. उत्तर प्रतापदेव, कु. अन्नापरा देवी पिता स्व. उदयप्रसाद देव, आदित्य प्रतापदेव पि. स्व. उदयप्रसाद देव, राजेश्वरी देवी पति स्व. सूर्य प्रतापदेव, अश्विनी प्रतापदेव पि. स्व. उदय प्रतापदेव नि. कांकेर नजूल अभिलेख में दर्ज है। आवेदक वदारा उक्त भूमि शीट नं. 11 सी, प्लॉट नं. 2+3/1 में से क्षेत्रफल 93 वर्ग मी., भू भातक 0.24 पैसा को विक्रय मूल्य 12,30,00,000 (बारह लाख तीन हजार रु.) में क्रय कर लिमिंक 23.01.2026 को जिला पंचायत कार्यालय कांकेर में पंजीयन कराने का प्रलेख करते हुए विक्रेतालय का नाम नजूल अभिलेख से निविदापत्र कर देना का नाम दर्ज किये जाा विक्रय पर की हस्ताप्रति के साथ क.ग. भू राजस्व खाता 1959 को भागा 109, 110 के तहत इस न्यायालय में आवेदन पर प्रस्तुत किया है। प्रकरण इस न्यायालय में विचारार्थ है। आदि: इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था, निगम और/आविकता द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति/स्था को खरा/आविकत प्रस्ताव करने के वे लिखत सुनाई दिखित 27/02/2026 तक स्वतः ही चौर स्वयं अपना आवेदन अधिपचार के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकती है। निवत तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा/आविकत पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। आज दिनांक13/2/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया। अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर (छ.ग.)
मुहर	नजूल अधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर

## कार्यालय कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. (भ/स) संभाग, बेमेतरा

// निविदा आमंत्रण सूचना //			
क्रमांक-965/NIT-13/2025-2026/ व ले लि	दिनांक <span> </span> : 16/02/2026		
निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि:	26/02/2026	अपरान्ह 5.30 बजे तक	
ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदायें प्राप्त करने की अंतिम तिथि:-	03/03/2026	अपरान्ह 5.30 बजे तक	
निविदा खोलने की तिथि -	05/03/2026	पूर्वाह्न 11.30 बजे तक	
एनआईटी क्र. निविदा क्र.	कार्य का नाम/NoOfCalls	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	कार्य की अनुमानित लागत (रु.में)
1	2	3	
13 TO101	जिला बेमेतरा के नांदघाट, देवकार एवं भिंमोरी में तहसील कार्यालय भवन का शेष निर्माण कार्य	10.00	7500.00
निविदा संबंधी शर्तों का अवलोकन संभागीय कार्यालय में किया जा सकता है।			
कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. (भ/स) संभाग, बेमेतरा			
जी-252606748			

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER PUBLIC WORKS DEPARTMENT, E/M CIRCLE, RAIPUR (C.G.)		
e-Procurement Tender Notice		
Online tenders are invited on behalf of Governor of Chhattisgarh from contractors, C.G. P.W.D in new Registration system (unified Registration system) for the following work :-		
NIT No.	Name of work	Probable amount of contract
94/SE E/M/2025 (ICall)	ELECTRIFICATION	Rs 48.38
System Tender No.185657	(RENOVATION) WORK AT	Lacs
Registered contractor class in "D" & above For Form "A" (Percentage Rate Tender)	STATE HANGER MANA, DIST.- RAIPUR (CG)	
Date of bid submission will be 03-03-2026		
The tender documents can be downloaded from the web-portal <a href="http://eproc.cgstate.gov.in">http://eproc.cgstate.gov.in</a> . Only those contractors/bidders, interested in bidding shall put the tender document cost online.		
Superintending Engineer P.W.D., E/M Circle Raipur (C.G.)		
G- 252606743		

सिम्प्लेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड	
	सीआईएन : L27320CT1980PLC019535 पंजीकृत कार्यालय <span> </span> : 32, धियाना कॉम्प्लेक्स जीई. रोड, सुपेला, भिलाई-490023 (छ.टी.) इंडिया ईमेल आईडी: <a href="mailto:cs@simplexcastings.com">cs@simplexcastings.com</a> , वेबसाइट: <a href="http://www.simplexcastings.com">www.simplexcastings.com</a>
<b>सोमवार, 2 मार्च, 2026 को दोपहर 2.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों के माध्यम से आयोजित होने वाली असाधारण आम बैठक की सूचना में संशोधन।</b>	
हम सिम्प्लेक्स कास्टिंग्स ('कंपनी') के सभी शेयरधारकों का ध्यान दिनांक 7 फरवरी, 2026 को जारी इस सूचना की आगे निर्दिष्ट करने वाले हैं, जिन्होंने कंपनी के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (इंजीएम) का आयोजन सोमवार, 2 मार्च, 2026 को दोपहर 2.00 बजे (भारतीय समयानुसार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') /अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ('ऑप्टीएम') के माध्यम से किया जाना है ('इंजीएम सूचना')। इंजीएम सूचना कंपनी के शेयरधारकों को 7 फरवरी, 2026 को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, इसके अंतर्गत बनाए गए संबंधित नियमों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और निगम बोर्ड द्वारा जारी संबंधित परिचयों के अनुपालन में भेजी गई है। पूर्व आम बैठक की सूचना में किए गए कुछ संशोधनों/परिवर्तनों/संशोधनकरणों के बारे में कंपनी के शेयरधारकों को सूचित करने के लिए यह शुद्धिपत्र ('शुद्धिपत्र') जारी किया जा रहा है।	
1. प्रस्तावित 53 आदिष्टियों में से एक आईटी भी प्ररुसना हुदुर परसडीआई (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के विनियम 159(1) के प्रावधानों के अनुसार अप्रवर्त हो गए हैं। तदनुसार, सी प्ररुसना हुदुर का नाम प्रस्तावित आदिष्टियों की सूची से हटा दिया गया है। परिणामस्वरूप: <ul style="list-style-type: none"><li>निर्माण शिफ्टाकर 49.89,99,774/- रुपये (उनतालीस करोड़ अरसी लाख निग्यानवे हजार सात सौ चौदह रुपये मात्र) कर दी गई है।</li><li>प्रस्तावित आदिष्टियों की संख्या 53 से घटकर 52 हो गई है।</li><li>शेयरों की संख्या घटकर 10,10,121 ड्रिविटी शेयर हो गई है।</li></ul>	
2. संबंधित तिथि को 31 जनवरी 2026 से संशोधित करके 30 जनवरी 2026 कर दिया गया है;	
3. संशोधित प्रसांगिक तिथि के अनुसार, परसडीआई (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के विनियम 164 के अनुसार प्रति ड्रिविटी शेयर 494 का निर्माण मूल्य निर्धारित किया गया है, जो प्रसांगिक तिथि से पहले के 493.55 (90 व्यापारिक दिनों का वीड्यूथूपी) और 456.81 (10 व्यापारिक दिनों का वीड्यूथूपी) से अधिक है;	
4. इंजीएम नोटिस के मद संख्या 1 के अंतर्गत, क्रमांक 2 पर उल्लिखित प्रस्तावित आवंटनकर्ता का नाम श्री सूर्य अजीशचंद गोखली (श्रेणी - व्यक्ति) के स्थान पर अनसीमसम इन्वेस्टमेंट्स एड सर्विसेज (श्रेणी - साझेदारी फर्म) पदा जाएगा। व्याख्यात्मक विवरण के बिंदु 6 में संबंधित जानकारी को भी संशुद्धि किया जाएगा ताकि प्रस्तावित आवंटनकर्ता का नाम अनसीमसम इन्वेस्टमेंट्स एड सर्विसेज और इसके अंतिम लाभार्थी का नाम सूर्य अजीशचंद गोखली के रूप में दर्शाया जा सके।	
5. यह पया गया है कि इंजीएम नोटिस में क्रमांक 52 पर उल्लिखित प्रस्तावित आवंटनकर्ताओं में से एक, श्री सुरेश त्रिवेदी के पास 146 शेयरों की पूर्व-धारणा है।	
6. निर्माण के बाद शेयरधारिता पैटर्न (अनुक्रमंक-1) और प्रस्तावित आदिष्टियों का विवरण (अनुक्रमंक-2) तदनुसार संशोधित किया जात है।	
उपरोक्त खुलासे को शामिल करने के बाद शुद्धिपत्र और अद्यतन इंजीएम नोटिस कंपनी की वेबसाइट <a href="http://www.simplexcastings.com">www.simplexcastings.com</a> पर, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> पर और सेटल डिवाइजरी सर्विसेज (डिडिज) लिमिटेड ('सीडीएसएल') के वेबसाइट <a href="http://www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a> पर उपलब्ध है। इंजीएम नोटिस और उसके खपटीकरण में उल्लिखित अन्य सभी विवरण और जानकारीयें, शुद्धिपत्र द्वारा किए गए संशोधनों या अनुसूचों को छोड़कर, अपरिवर्तित रहेंगी। शुद्धिपत्र इंजीएम नोटिस और उसके खपटीकरण का अभिन्न अंग होगा और इसे इंजीएम नोटिस और उसके खपटीकरण के साथ पदा जाएगा। ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असाधारण आम बैठक में भाग लेने का तरीका:	
कृपया इंजीएम नोटिस में उल्लिखित विस्तृत प्रक्रिया और निर्देशों का संधर्भ लें। अद्यतन इंजीएम नोटिस (जो अपरिवर्तित रहता है) में दूरस्थ ई-वोटिंग की समस्यासही, ई-वोटिंग के लिए तालीम विवरण और इंजीएम में भाग लेने के संबंध में जानकारी दी गई है।	
निदेशक मंडल के आदेशानुसार सिम्प्लेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड के लिए हस्ताक्षर/- साक्षी जेन (कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी) सदस्यता संख्या <span> </span> : A73319	
स्थान <span> </span> : भिलाई दिनांक <span> </span> : 17 फरवरी, 2026	

रणजी सेमीफाइनल में शमी का कहर , आठ विकेट लेकर चयनकर्ताओं को दिया करारा जवाब	
कल्याणी (ए )। भारत के सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन कर अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद एक बार फिर राष्ट्रीय चयनकर्ताओं शमी ने रणजी ट्रॉफी के का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 17 फरवरी को कल्याणी के बंगाल क्रिकेट एकेडमी मैदान में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ खेलते हुए शमी ने जम्मू-कश्मी की पहली पारी के दौरान आठ विकेट झटककर सुर्खियां बटोरीं। हालांकि, बंगाल की स्थिति खराब है जम्मू-कश्मीर को दूसरी पारी में जीतने के लिए 126 रन बनाने हैं। बंगाल क्रिकेट ग्राउंड पर शमी ने रस्ताार, स्टोटक लाइन-लेंथ और अनुभव का	
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल राजधानी परियोजना संभाग, नवा रायपुर अटल नगर	
:: वृत्तर्ध निविदा आमंत्रण सूचना :: विद्यमान क्रमांक -101	
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, राजधानी परियोजना संभाग, नवा रायपुर अटल नगर में स्वीचिंग सामान 23690.53 वर्ग मी., खेत, भू भातक 62.00 वर्ग, विद्युत्सरो जमी पति स्व. उत्तर प्रतापदेव, कु. अन्नापरा देवी पिता स्व. उदयप्रसाद देव, आदित्य प्रतापदेव पि. स्व. उदयप्रसाद देव, राजेश्वरी देवी पति स्व. सूर्य प्रतापदेव, अश्विनी प्रतापदेव पि. स्व. उदय प्रतापदेव नि. कांकेर नजूल अभिलेख में दर्ज है। आवेदक वदारा उक्त भूमि शीट नं. 11 सी, प्लॉट नं. 2+3/1 में से क्षेत्रफल 93 वर्ग मी., भू भातक 0.24 पैसा को विक्रय मूल्य 12,30,00,000 (बारह लाख तीन हजार रु.) में क्रय कर लिमिंक 23.01.2026 को जिला पंचायत कार्यालय कांकेर में पंजीयन कराने का प्रलेख करते हुए विक्रेतालय का नाम नजूल अभिलेख से निविदापत्र कर देना का नाम दर्ज किये जाा विक्रय पर की हस्ताप्रति के साथ क.ग. भू राजस्व खाता 1959 को भागा 109, 110 के तहत इस न्यायालय में आवेदन पर प्रस्तुत किया है। प्रकरण इस न्यायालय में विचारार्थ है। आदि: इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था, निगम और/आविकता द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति/स्था को खरा/आविकत प्रस्ताव करने के वे लिखत सुनाई दिखित 27/02/2026 तक स्वतः ही चौर स्वयं अपना आवेदन अधिपचार के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकती है। निवत तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा/आविकत पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। आज दिनांक13/2/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया है। अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर (छ.ग.)	
आरबीएल बैंक लिमिटेड	
प्रशासनिक कार्यालय <span> </span> : पहली लेन शासपुरी, कोलारपुर-416001	
शाखा कार्यालय <span> </span> : सारसीएल बैंक लिमिटेड, 3वीं मंजिल, टेक्नीकलेस-1, ऑफिस वीर सावरकर प्लायआवर, गोरेगांव (प्रशिम) मुम्बई - 400 082	
सराफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण नोटिस	
नीचे कॉलम में उल्लिखित ऋणी एवं सह-ऋणी के रियरपोर्ट ड्रेडिटर आरबीएल बैंक लिमिटेड द्वारा आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपके मौलान एवं व्यापार में कर्जदार/पंजी/ पुनर्आवेदन न करने पर आपके खातों को हमारे खातों में नॉन-परगार्मेंस एकाउंट (एनपीए) के रूप में वांछित किया जा चुका है। अब आपको नोटिस दिनांक तक निम्न उल्लेखित कुल बकाया एवं देय राशि अनुवृत्त व्याज सहित आरबीएल बैंक लिमिटेड को भुगतान करना है। हमारे बार-बार मांग करने के बावजूद भी आपने अपने खातों में बकाया राशि(यों) का भुगतान नहीं किया है और आपने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया है, इसलिए हमारे द्वारा वित्तीय आसित्यों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था जिसमें आपके दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वाह करने के लिए नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के अंदर अर्द्धबर्धित दर्द पर आगे का व्याज, खर्च, शुल्क एवं अन्य राशि(यों) सहित उपर्युक्त निर्दिष्ट बकाया देय राशि का भुगतान करने की मांग की गई थी।	
ऋण खाता क्रं., ऋणी का नाम, 13(2) नोटिस विवरण एवं सांकेतिक आधिपत्य दिनांक	बंधक संपत्ति का विवरण
1. मेसर्स भाए जे इंटरप्राइजेंस, प्रोप्रायटरी श्री रजत झा के माध्यम से (आवेदक एवं बंधककर्ता)	बंधक स्वी गई संपत्ति का विवरण
2. श्री रजत राजेंद्र झा (सह-आवेदक एवं बंधककर्ता)	श्री रजत राजेंद्र झा के स्वामित्व वाली संपत्ति <span> </span> : खसरा नंबर 152 के सम्पत्त भाग एवं अंश, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1000 वर्गफीट (अर्थात 92.93 वर्ग मीटर) है, जो मोहल्ला रोहिणीपुरम, पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड नंबर 69, ग्राम डंगनिया, पटवारी हल्का नंबर 104/35, राजस्व निरीक्षक मंडल रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है।
3. श्रीमती मंजू राजेंद्र झा पति राजेंद्र झा (सह-आवेदक) पत्राचार के पते:	जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व दिशा में: अन्य की भूमि, पश्चिम दिशा में: सड़क, दक्षिण दिशा में: विक्रेता की शेष भूमि, उत्तर दिशा में: पुरुषोत्तम वर्मा की भूमि
1. धरमपुरा नंबर 1, झा कॉम्प्लेक्स के पीछे, गुरु गोविंद सिंह वार्ड नंबर 36, कोमल एंटरप्राइजेज, जगदलपुर, जिला बस्तर - 494 001.	
2. खसरा नंबर 152, प.ह.नं. 104/35, वार्ड नंबर 69, पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, मोहल्ला राणीपुरम, रायपुर, छत्तीसगढ़.	
ऋण खाता संख्या: 8090003035916, ऋण राशि: रु.16,49,678/- एनपीए तिथि: 27/09/2021, 13(2) नोटिस की तिथि: 09/02/2026 13(2) नोटिस की राशि: रु.13,01,835.90/-	
अब आपके दायित्वों के पूर्ण निर्वाह हेतु आरबीएल बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा एतद्वारा नियमों के अधीन यथा प्रवत उपर्युक्त डिमांड नोटिस की विषय-वस्तु प्रकाशित की जा रही है अन्यथा हम कथित नियम के अंतर्गत दिए गए किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करके हुर आपके द्वारा हमारे पक्ष में निम्नलिखित सुचित जमानत को जब्त करने के लिए बाध्य होंगे। कृपया नोट करं कि इसे कानून के अंतर्गत कथित फाईनंशियल के कईदारों एवं गारंटरो के विरुद्ध आरबीएल बैंक के लिए तथा उपलब्ध कथित अधिकारों एवं उपायों के प्रति पूर्वाधिक के बिना प्रकाशित किया गया है। आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि नोट करं कि कथित अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार हमारी पूर्व अनुमति के बिना आपके द्वारा उपर्युक्त जमानत का निपटान या लेनदेन करना या बिक्री, पट्टा या अन्य किसी भी रूप में उपर्युक्त जमानती संपत्ति का हस्तारोहण प्रतिबंधित/ वर्जित है।	
स्थान <span> </span> : रायपुर दिनांक <span> </span> : 17/02/2026	आरबीएल बैंक लिमिटेड प्राधिकृत अधिकारी, अभय निगम,

संभव स्टील टयूब्स लिमिटेड	
CIN no. : L27320CT2017PLC007918	
पंजीकृत कार्यालय: ऑफिस नं. 501 से 511, हर्षित कॉम्प्लेड, आमानाका, रायपुर (छ.ग.), भारत - 492001 दूरभाष: 0771-2222360, ई-मेल: <a href="mailto:cs@sambhv.com">cs@sambhv.com</a> , वेबसाइट: <a href="http://www.sambhv.com">www.sambhv.com</a>	
सदस्यों को पोस्टल बैलैट नोटिस और ई-वोटिंग सूचना	
कंपनी के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि उक्त नोटिस में उल्लिखित संस्करणों को स्वीकृति हेतु पोस्टल बैलट नोटिस इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दिया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा मंत्रालय ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार उन सदस्यों को भेजा गया है जिन्हें ई-मेल पते कंपनी (केफिनटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिनटेक"), कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट / डिवाइजटरी प्रतिभागियों (यों) / डिवाइजटरी (यों) के साथ पंजीकृत हैं, जैसा कि शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 ("कट-ऑफ डेट") को है। कंपनी ने मंगलवार, 17 फरवरी, 2026 को पोस्टल बैलट नोटिस का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण पूर्ण कर लिया है। पोस्टल बैलट नोटिस कंपनी की वेबसाइट <a href="http://www.sambhv.com">www.sambhv.com</a> पर तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट्स अर्थात बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट्स क्रमशः <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> तथा <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> पर तथा केफिन टेक वेबसाइट <a href="https://evoting.kfintech.com">https://evoting.kfintech.com</a> पर उपलब्ध है। जिन सदस्यों को डाक मतपत्र सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वे इसे उपर्युक्त वेबसाइट्स से डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्टल बैलट नोटिस में उल्लिखित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैं। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य <a href="mailto:cs@sambhv.com">cs@sambhv.com</a> पर अपना फॉलोयो नंबर / डीपी आईडी एवं क्वाइट आईडी का उल्लेख करते हुए ई-मेल भेज सकते हैं। नोट्स ऑफ डायरेक्टर्स ने मेसर्स रोहताश अग्रवाल एंड कंपनी के प्रोप्राइटर, रायपुर (C.G.) के प्रेक्टिसियर कंपनी सेक्रेटरी, श्री रोहताश कुमार अग्रवाल (मैमबरशिप नंबर FCS 5537, COP नंबर 4015) को ई-वोटिंग के जॉए पोस्टल बैलैट प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपैरेंट तरीके से कंडक्टर करने के लिए स्कूटीनाइजर अर्थाई कर दिया है।	
ई-वोटिंग संबंधी निर्देश: कंपनी अपने सदस्यों को उक्त पोस्टल बैलैट नोटिस में प्रस्तावित संस्करण पर मतदान करने के अधिकार का प्रयोग केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई-वोटिंग") से करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यों की सहमति या असहमति का संश्लेष केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाएगा। ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु कंपनी ने KFin Technologies Limited को एगेंसी के रूप में नियुक्त किया है। सदस्यों की अवधि शुरूकर, 19 फरवरी, 2026 को प्रातः 09:00 बजे (भारतीय मानक समय) से प्राप्रत होगी और शनिवार, 21 मार्च, 2026 को प्रातः 05:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी। उक्त तिथि एवं समय के परचावा ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी तथा उक्त अवधि समाप्त होने पर केफिनटेक द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल तत्काल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। डिमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों तथा जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए ई-वोटिंग का तरीका पोस्टल बैलैट नोटिस में दिया गया है। यूजर आईडी तथा पासवर्ड भूल जाने वाले सदस्यों द्वारा उन्हें प्राप्ता/जेनेरेट करने का तरीका भी उक्त नोटिस में दिया गया है। केवल लही व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ डेट को डिवाइजिटरी द्वारा रखे गए सदस्य रजिस्टर / लाभार्थी मालिक रजिस्टर में दर्ज है, ई-वोटिंग में भाग लेने का हक्कर होगा। कट-ऑफ डेट को सदस्य न होने वाला व्यक्ति पोस्टल बैलैट नोटिस को केवल सूचनात्मक उद्देश्य से ही प्रेषण करे। ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका:	
a) भौतिक रूप (Physical Mode) में शेयर धारित करने वाले वे सदस्य जिन्होंने अपना ई-मेल पता कंपनी के साथ पंजीकृत/अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे प्रपत्र ISR-1 (जो कंपनी की वेबसाइट <a href="http://www.sambhv.com">www.sambhv.com</a> पर उपलब्ध है) को विधिकृत भरकर एवं हस्ताक्षरित कर, आवश्यक सहायक दस्तावेजों सहित KFin Technologies Limited (यूनिट: Sambhv Steel Tubes Limited), सेलेनियम टॉवर बीच, प्लॉट 31 एवं 32, गाजीबोली, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकामगुडा, हैदराबाद - 500 032 पर प्रेषित करें। b) डीमैट रूप (Dematerialized Mode) में शेयर धारित करने वाले वे सदस्य जिन्होंने अपना ई-मेल पता अपने डिवाइजिटरी पार्टिसिपेंट (S) के साथ पंजीकृत/अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिवाइजिटरी पार्टिसिपेंट (स) के साथ, जहाँ उनका डीमैट खाता संचालित है, अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें। यदि संस्करण अनुमोदित हो जाता है, तो इसे ई-वोटिंग की अंतिम तिथि अर्थात् शनिवार, 21 मार्च, 2026 को पारित माना जाएगा। ई-वोटिंग के परिणाम स्कूटीनाइजर की रिपोर्ट सहित मंगलवार, 24 मार्च, 2026 तक या उससे पूर्व घोषित किए जाएंगे तथा कंपनी की वेबसाइट <a href="http://www.sambhv.com">www.sambhv.com</a> और KFin Technologies Limited की वेबसाइट <a href="https://evoting.kfintech.com">https://evoting.kfintech.com</a> पर प्रदर्शित किए जाएंगे।	
परिणाम, स्कूटीनाइजर की रिपोर्ट सहित, साफ ही स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित किए जाएंगे। मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए सदस्य KFin Technologies Limited की वेबसाइट <a href="https://evoting.kfintech.com">https://evoting.kfintech.com</a> पर "Downloads" अनुभाग में उपलब्ध ड्राइव-डाउन मेनु के अंतर्गत "Help" एवं "FAQs" अनुभाग/ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के निवारण हेतु संपर्क विवरण इस प्रकार है: Umesh Pandey (सीनियर मैनेजर), KFin Technologies Limited, सेलेनियम टॉवर बीच, प्लॉट 31 एवं 32, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500032, भारत। ई-मेल: <a href="mailto:cinward.ris@kfintech.com">cinward.ris@kfintech.com</a> / <a href="mailto:umesh.pandey@kfintech.com">umesh.pandey@kfintech.com</a> टोल-फ्री नंबर: 1-800-309-4001।	
संभव स्टील टयूब्स लिमिटेड, के लिए Sd/- नीज श्रीवास्तव कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	

को दिया करास जवाब

बेहतरिनी नमूना पेश किया। पहली पारी के 59वें ओवर में उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज कन्हैया वधानन को कैच आउट कर अपना पांचवां विकेट पूरा किया। इसके बाद उनका जोशीला जसरा साफ दिखा कि वह किस आत्मविश्वास में गेंदबाजी कर रहे हैं। मैच में कुल आठ विकेट लेकर शमी ने साबित किया कि धरुल क्रिकेट में उनका फॉर्म लगातार निखर रहा है। 35 वर्षीय शमी इस रणजी सीरिज में अब तक सात मैचों में 38 विकेट ले चुके हैं, जिसमें तीन बार पांच विकेट हॉल शामिल है। पिछले महीने सर्विसेज के खिलाफ भी उन्होंने 5/51 का बेहतरीन प्रदर्शन किया था।

कार्यालय नगर पंचायत पाटन जिला-दुर्ग छ.ग.

क्रं./ 3001/निर्माण/न.प./2026

पाटन दिनांक 17.02.2026

// ई-प्रथम प्रोक्वोरमेंट निविदा सूचना //

नगर पंचायत पाटन के द्वारा एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग छ.ग. से सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु ई-प्रोक्वोरमेंट फॉर्म 'ए' में प्रतिशत दर पर P.W.D BUILDING SOR 01.01.2015 में निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	सिस्टम टेंडर नं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाख में)	निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि
1	185773	वार्ड क्र. 05 अखरा पाटन में यादव समाज भवन के पास डोम रोड निर्माण कार्य (संसद निधि)	10.00	10.03.2026 समर 17.30 बजे तक
2	185770	वार्ड क्र. 01 से 15 विभिन्न स्थानों में आर.सी.सी.स्लेब कार्य (अंधोसचना मद)	19.97	

उपरोक्त कार्य की निविदा की सामान्य शर्तें धरोहर राशि विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना विभाग के वेबसाइट में प्रसारित की जाएगी, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जाएगा। साथ ही यह जानकारी विभागीय वेबसाइट [uad.cg.gov.in](http://uad.cg.gov.in) से एवं ई-प्रोक्वोरमेंट वेब पोर्टल <http://eproc.cgstate.gov.in> से डाउनलोड की जा सकती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पंचायत पाटन





**ODISHA GRAMEEN BANK**  
HO: AT: GANDAMUNDA, P.O.: KHANDAGIRI,  
BHUBANESWAR-751030, TEL. NO.: 0674-2353009

Odisha Grameen Bank invites application/bid through open tender from interested Eligible Printing firms/bidders for Empanelment and Rate contract of Security Printing Press/Printers for Printing and Supply of Cheque (SB/CA/CC), Demand Draft on CTS- 2010 FORMAT and Deposit Receipt. For details log on to our Bank's website [www.odishabank.bank.in](http://www.odishabank.bank.in) .

Sd/- **General Manager**



**ITC Limited**  
CIN: L16005WB1910PLC001985

**Registered Office:** Virginia House, 37 Jawaharlal Nehru Road, Kolkata 700 071  
Tel: +91 33 2288 9371 • Fax: +91 33 2288 2358 • E-mail: [isc@itc.in](mailto:isc@itc.in)  
Website: [www.itcportal.com](http://www.itcportal.com)

Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, an Ordinary Resolution for appointment of Mr. Navin Agarwal as a Director of the Company, as set out in the Notice dated 29th January, 2026, is proposed to be passed through Postal Ballot by voting through electronic means ('remote e-voting'). Despatch of the said Postal Ballot Notice along with the Explanatory Statement was completed on 16th February, 2026.

The Notice is available on the Company's corporate website [www.itcportal.com](http://www.itcportal.com) under the section 'Investor Relations', e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL - [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)) and on the websites of National Stock Exchange of India Limited ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)), where the Company's shares are listed.

In conformity with the regulatory requirements, **Members are advised to cast their votes on the aforesaid Resolution through remote e-voting which commenced at 9.00 a.m. (IST) on Tuesday, 17th February, 2026 and will end at 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, 18th March, 2026**, when remote e-voting will be blocked by NSDL. Members whose names were recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories on **Friday, 30th January, 2026 (cut-off date)** are entitled to cast their votes on the aforesaid Resolution.

Members who have not registered their e-mail address with the Company or the Depositories and wish to receive the Postal Ballot Notice and / or cast their votes through remote e-voting are required to register their e-mail address with the Company at <https://eform.itcportal.com> . Alternatively, Members may send a letter requesting for registration of their e-mail address, mentioning their name and DP ID & Client ID / folio number, at [isc@itc.in](mailto:isc@itc.in) or by post to the Investor Service Centre of the Company ('ISC') at 37 Jawaharlal Nehru Road, Kolkata 700 071.

In case of any query, Members may refer to the Frequently Asked Questions and e-voting User Manual for Shareholders available under the Download section of NSDL's e-voting website. Members may also contact the following persons for any query / grievance or if they require any technical assistance with respect to remote e-voting:

(a) Mr. Amit Vishal, Deputy Vice President, National Securities Depository Limited, 301, Naman Chambers, Plot No. C-32, G-Block, 3rd Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051 at telephone no. **022-4886 7000** or at e-mail ID [AmitV@nsdl.com](mailto:AmitV@nsdl.com) ;

(b) Mr. T. K. Ghosal, Head of ISC, at telephone nos. **1800-345-8152 (toll free) or 033-2288 6426 / 0034** or at e-mail ID [tunal.ghosal@itc.in](mailto:tunal.ghosal@itc.in) . Queries may also be sent at [isc@itc.in](mailto:isc@itc.in) .

The Results of remote e-voting will be declared on **Thursday, 19th March, 2026**. The declared Results, along with the Scrutinizer's Report, will be available forthwith on the Company's corporate website under the section 'Investor Relations' and on NSDL's e-voting website. Such Results will also be forwarded to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

ITC Limited  
R. K. Singhi  
Executive Vice President &  
Company Secretary

Dated: 18th February, 2026



**Rane (Madras) Limited**  
(Corporate Identity Number: L65993TN2004PLC052856)  
Registered Office: 'Maithri', No. 132, Cathedral Road, Chennai - 600 086  
[e-mail: [investorservices@ranegroup.com](mailto:investorservices@ranegroup.com)] [Website: [www.ranegroup.com](http://www.ranegroup.com)]  
[Tel: 044-28112472 / 73]

**NOTICE TO MEMBERS – POSTAL BALLOT**

Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the MCA Circulars (as defined below)

Members are hereby informed that pursuant to section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("SEBI LODR") and in terms of the circulars issued in this regard by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") latest being General Circular No.03/2025 dated September 22, 2025 read with previous circulars (referred to as "MCA Circulars") and other applicable provisions of law / regulations for the time being in force, the Company has sought the approval of members by way of a special resolution for the payment of commission to Non-Executive Directors and Independent Directors for a period of five years commencing from April 01, 2025 as set out in the Notice dated February 04, 2026 ("Notice"), by way of postal ballot through remote electronic voting ("e-voting").

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Company has dispatched the Postal Ballot Notice on **Wednesday, February 18, 2026** through electronic mode to all those Members holding shares as on **Friday, February 13, 2026 ("cut-off date")** and whose email addresses are registered with the Company / Depositories. Members whose e-mail IDs are not registered with the depositories are requested to send required details and documents as described in the Postal Ballot Notice to Company's e-mail ID [investorservices@ranegroup.com](mailto:investorservices@ranegroup.com) or to RTA's e-mail ID [einward@integratedindia.in](mailto:einward@integratedindia.in).

Pursuant to the aforesaid circulars, the physical copy of Postal Ballot Notice, forms and pre-paid business envelope will not be sent for this Postal Ballot. The voting can be done only through remote e-voting facility. The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating the remote e-voting. The remote e-voting period commences on **Thursday, February 19, 2026 (9:00 hrs IST)** and ends on **Friday, March 20, 2026 (17:00 hrs IST)** (both days inclusive). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and the e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date alone shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. Any person who is not a member as on the cut-off date shall treat this notice for information purposes only.

E-voting facility is available at the link: [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). Postal Ballot Notice along with explanatory statement inter alia indicating process and manner of casting vote through remote e-voting by members holding shares in physical form, dematerialized form and by members who have not registered their email addresses is available at the website of the Company at [www.ranegroup.com](http://www.ranegroup.com), the websites of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and CDSL website at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

Mr. Balu Sridhar, Company Secretary (ICSI Membership no. FCS 5869) and Partner of M/s. AK Jain and Associates, Company Secretaries, has been appointed by the Board as the scrutinizer to scrutinize the postal ballot in a fair and transparent manner.

The results of the postal ballot will be declared within 2 days from the date of conclusion of the postal ballot process i.e., on or before Sunday, March 22, 2026 at 17:00 hrs (IST) at the Registered Office of the Company. The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company viz., [www.ranegroup.com](http://www.ranegroup.com) and on the website of CDSL [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) immediately after the declaration of result. The results shall also be immediately forwarded to the stock exchanges where the Company's shares are listed.

If you have any queries or issues regarding e-Voting of CDSL e-Voting System, you can write an email to [helpdesk.evoting@cdsindia.in](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.in) or contact at toll free no. 1800 21 09911.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatall Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to [helpdesk.evoting@cdsindia.in](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.in) or call at toll free no.1800 21 09911 or our Registrar and Share Transfer Agents at their e-mail ID [einward@integratedindia.in](mailto:einward@integratedindia.in). Shareholders have the option to avail the facility of Online Dispute Resolution System (ODR) introduced by SEBI vide its Circular no. SEBI/HO/OIAE/IAJ – 1/P/CIR/2023/131.

By Order of the Board  
For Rane (Madras) Limited  
S Subha Shree  
Secretary

Place: Chennai  
Date: February 18, 2026



**SAMBHV STEEL TUBES LIMITED**  
CIN NO. : L27320CT2017PLC007918.  
Registered Office: Office No. 501 to 511 Harshit Corporate, Amanaka, Raipur (C.G) India, 492001 Tel.: 0771-2222360  
Email: [cs@sambhv.com](mailto:cs@sambhv.com), Website: [www.sambhv.com](http://www.sambhv.com)

**POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INTIMATION TO MEMBERS**

Members of the Company are hereby informed that a Postal Ballot Notice, seeking their approval to the resolutions set out in the said Notice has been sent electronically, pursuant to the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, to the members whose e-mail address is registered with the Company / KFin Technologies Limited ("KFinTech"), Company's Registrar and Transfer Agent/Depository Participant(s)/Depositories, as on Friday, February 13, 2026 ("Cut-Off Date"). The Company has completed electronic dispatch of the Postal Ballot Notice on Tuesday, February 17, 2026.

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website at [www.sambhv.com](http://www.sambhv.com) and on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), respectively and on the website of KFin Tech at <https://evoting.kfintech.com>. Members who do not receive the Postal ballot Notice may download it from the above-mentioned websites.

The documents referred to in the Postal Ballot Notice are available for inspection electronically and members seeking to inspect such documents can send an email to [cs@sambhv.com](mailto:cs@sambhv.com) mentioning his/her / its folio number / DP ID and Client ID.

**The Board of Directors has appointed Mr. Rohtash Kumar Agrawal, Proprietor of M/s Rohtash Agrawal & Co. (Membership No. FCS 5537, COP No. 4015), Practising Company Secretary, Raipur (C.G.) as the scrutinizer for conducting the Postal Ballot process via e voting in a fair and transparent manner.**

**Instruction for e voting:** The Company is providing to its members the facility to exercise their right to vote on the resolution proposed in the said Postal Ballot Notice only by electronic means ("e-voting"). The communication of the assent or dissent of the members would take place through remote e-voting process only. The Company has engaged the services of KFinTech as the agency to provide e-voting facility. **The e-Voting period commences on Thursday, 19th February, 2026 [09:00 A.M. (IST)] and ends on Saturday, 21th March, 2026 [05:00 P.M. (IST)].**

E voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-voting module shall be forthwith disabled by KFinTech upon expiry of the aforesaid period.

Manner of e voting by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and members who have not registered their email address has been provided in the Postal Ballot Notice. The manner, in which members, who have forgotten the User ID and Password, can obtain/generate the same, has also been provided in the said Notice.

Only a person, whose name is recorded in the register of members / register of beneficial owners, as on the Cut-Off Date, maintained by the Depositories shall be entitled to participate in the e voting. A person, who is not a member as on the Cut-Off Date, should treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

**Manner of registering/updating e-mail address:**

a) Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their e-mail address with the Company, are requested to register / update their e-mail address by submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company at [www.sambhv.com](http://www.sambhv.com)) duly filled and signed along with requisite supporting documents to KFinTech (Unit: Sambhv Steel Tubes Limited) at Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032.

b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their e-mail address with their Depository Participant(s), are requested to register/ update their e-mail address with the Depository Participant(s) where they maintain their Demat accounts.

The resolution, if approved, shall be deemed to have been passed on the last date of e voting i.e. Saturday, March 21, 2026. **The results along with the Scrutinisers report** of e voting will be announced on or before Tuesday, March 24, 2026 and will be displayed on the Company's website at [www.sambhv.com](http://www.sambhv.com) and the website of KFinTech at <https://evoting.kfintech.com>. **The results along with the Scrutinisers report** will simultaneously be communicated to the Stock Exchanges and will be displayed at the registered office of the Company.

In case of any query on voting, members may refer to the "Help" and "FAQs" sections/E-voting user manual available through a dropdown menu in the "Downloads" section of KFin Tech's website for e-voting at <https://evoting.kfintech.com>. **The contact details for addressing e-voting related queries / grievances, if any, Mr. Umesh Pandey (Senior Manager), KFin Technologies Limited , Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32 | Financial District Nanakramguda | Serilingampally Mandal | Hyderabad - 500032 | India , at [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com), [umesh.pandey@kfintech.com](mailto:umesh.pandey@kfintech.com) or call on 1-800-309-4001.**

For, Sambhv Steel Tubes Limited  
Sd/- Niraj Shrivastava  
Company Secretary and Compliance officer

Place: Raipur  
Date: February 17, 2026



**EICHER MOTORS LIMITED**  
CIN : L34102DL1982PLC129877  
**Registered Office:** Office number 1111, 11th Floor, Ashoka Estate, Plot Number 24, Barakhamba Road, New Delhi - 110001  
**Telephone:** +91 11 41095173  
**Corporate Office:** #96, Sector 32, Gurugram - 122001, Haryana  
**Telephone:** +91 124 4445070  
**Email:** [investors@eichermotors.com](mailto:investors@eichermotors.com)  
**Website:** [www.eichermotors.com](http://www.eichermotors.com)

**SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE/MENT FOR TRANSFER OF PHYSICAL SHARES**

Pursuant to SEBI Circular HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026, a Special Window has been made available for a period of one year from February 05, 2026 to February 04, 2027 for transfer and demat of physical shares which were sold/purchased prior to April 01, 2019 and rejected / returned / not attended, due to deficiency in the documents / process or otherwise.

The eligible shareholders may submit the transfer deeds and furnish necessary documents, duly complete in all respects, to the Registrar to an issue and Share Transfer Agent (RTA). Transferred Shares will only be issued in demat mode once the same are found in order by the RTA and shall be locked in for one year from the date of registration of transfer, in accordance with SEBI guidelines. The disputed cases and IEPF-transferred securities remain excluded from this facility.

Contact Details of RTA: MUFG Intime India Private Limited, C-101, Embassy 247, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, email id [Investor.helpdesk@in.mpm.mufg.com](mailto:Investor.helpdesk@in.mpm.mufg.com). Shareholders may also contact the Company at [investors@eichermotors.com](mailto:investors@eichermotors.com) for any further assistance.

For Eicher Motors Limited  
Sd/-  
Atul Sharma  
Company Secretary &  
Compliance Officer

**Date** : February 17, 2026  
**Place** : Gurugram, Haryana

*This advertisement is for information purposes only and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated April 19, 2025 (the "Letter of Offer" or "LOF"), filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and the stock exchanges, namely BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and together with "BSE", "Stock Exchanges").*



**LLOYDS ENGINEERING WORKS LIMITED**  
Regd. Office: PLOT NO. A 5/5, MIDC INDUSTRIAL AREA, MURBAD, DIST. THANE: 421401.  
Corporate Office: A2, 2nd Floor, Madhu Estate, Pandurang Budhkar Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013.  
Tel. Nos.: 022-6291 8111 CIN : L28900MH1994PLC081235  
Website : [www.lloydsengg.in](http://www.lloydsengg.in) Email: [infoengg@lloyds.in](mailto:infoengg@lloyds.in)

**CORRIGENDUM TO THE NOTICE FOR THE PAYMENT OF FIRST AND FINAL CALL MONEY PUBLISHED ON JANUARY 30, 2026 IN (i) All editions of Business Standard (English and Hindi national daily newspaper with wide circulation); and (ii) the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi language daily newspaper with wide circulation, Marathi being the regional language of Mumbai, where our Registered Office is situated).**

**FOR THE ATTENTION OF ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES (ISIN: INE093R01011) OF LLOYDS ENGINEERING WORKS LIMITED HELD AS ON RECORD DATE I.E. WEDNESDAY, JANUARY 28, 2026.**

**CORRIGENDUM TO FIRST AND FINAL CALL NOTICE**

**First and Final Call Payment Period Opens on : Wednesday, February 18, 2026**

**First and Final Call Payment Period Closes on : Wednesday, March 04, 2026**


All the Eligible shareholders are requested to take note of the above change in the First and Final Call Call Money payment period. All capitalized terms not defined herein would have the same meaning as attributed to it in the Letter of Offer.

All correspondence in this regard may be addressed to Registrar to the Issue at the below mentioned address

Bigshare Services Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent, Unit – Lloyds Engineering Works Limited, Office No. S6-2, 6<sup>th</sup> Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, India.  
**Telephone:** +91-22-62638200,  
**Email:** [investor@bigshareonline.com](mailto:investor@bigshareonline.com)  
**Contact Person:** Suraj Gupta  
**Website:** [www.bigshareonline.com](http://www.bigshareonline.com),  
**SEBI Registration No.:** INR000001385.

For Lloyds Engineering Works Limited  
Sd/-  
Rahima Shaikh  
Company Secretary and Compliance Officer  
ACS: 63449

**Date:** February 18, 2026  
**Place:** Mumbai



**CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED**  
**Registered Office:** Gadepan, Distt. Kota, Rajasthan, PIN-325 208  
**Tel No.** +91-0744-2782915; **Fax No.** +91-07455-274130  
**Corporate Office:** "Corporate One", First Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi - 110 025  
**Tel. Nos.:** +91-11-46581300, 41697900; **Fax No.:** +91-11-40638679  
**Email:** [isc@chambal.in](mailto:isc@chambal.in); **Website:** [www.chambalfertilisers.com](http://www.chambalfertilisers.com); (CIN: L24124RJ1985PLC003293)

**NOTICE**

**SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALISATION (DEMAT) OF PHYSICAL SHARES**

As per SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026 ("SEBI Circular") a Special Window for transfer and dematerialisation (demat) of physical shares will remain open up to February 04, 2027 and available to those investors who had purchased physical shares of Chambal Fertilisers and Chemicals Limited ('the Company') prior to April 01, 2019, and:

(a) had not lodged the shares for transfer; or

(b) had lodged the shares for transfer, but the same were rejected, returned, or not attended to due to deficiencies in documentation.

For clarity regarding the applicability of this window to transfer deeds executed before April 1, 2019, investors may refer to the matrix below:

Lodged for transfer before April 01, 2019?	Is the Original Share Certificate available with the Investor?	Whether eligible to lodge in the Special Window?
No – it is fresh lodgement	Yes	Yes
Yes, but was rejected/ returned earlier	Yes	(subject to conditions stated in the SEBI Circular)
Yes, was lodged	No	No
No, was not lodged	No	No

**Request(s) which are accompanied by original share certificate(s) along with transfer deed(s) and other supporting documents will only be considered under the Special Window.**

The shares transferred pursuant to this special window facility shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer.


Investors wishing to avail of this Special Window may contact the Company's **Registrar to an issue and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited** (Unit: Chambal Fertilisers and Chemicals Limited), having their address at Selenium Tower-B, Plot Nos. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500032.

For further details, investors may refer to the SEBI Circular available at: [https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/jan-2026/ease-of-doing-investment-special-window-for-transfer-and-dematerialisation-of-physical-securities\\_99411.html](https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/jan-2026/ease-of-doing-investment-special-window-for-transfer-and-dematerialisation-of-physical-securities_99411.html)

Queries may be addressed to [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com).

For Chambal Fertilisers and Chemicals Limited  
Sd/-  
Tridib Barat  
Vice President – Legal & Company Secretary

Place : New Delhi  
Date : February 17, 2026



**HEG LIMITED**  
CIN : L23109MP1972PLC008290

**Regd. Office:** Mandideep (Near Bhopal), Distt. Raisen-462 046, (M.P.)  
Phone: 07480-233524, 233525 Fax : 07480-233522

**Corp. Office:** Bhilwara Towers, A - 12, Sector - 1, Noida - 201 301, (U.P.), Phone: 0120-4390300 (EPABX), Fax: 0120-4277841, E-mail: [heg.investor@injbhilwara.com](mailto:heg.investor@injbhilwara.com); Website: [www.heg ltd.com](http://www.heg ltd.com)

**NOTICE**

**Special Window for Transfer and Dematerialization of Physical Shares**

Pursuant to **SEBI circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026**, we bring it to your notice that a Special Window has been opened from **February 05, 2026 to February 04, 2027**, to facilitate the transfer and dematerialization ("demat") of physical securities.

This facility of the said Special Window is for lodgement of physical securities transfer and demat which were sold/purchased prior to April 01, 2019. Shareholders/Investors are requested to refer to the below matrix as prescribed inter-alia by SEBI vide its circular dated January 30, 2026 for guidance on applying for transfer and dematerialisation of physical shares:

Execution Date of Transfer Deed	Lodged for transfer before April 01, 2019 ?	Original Security Certificate Available ?	Eligible to lodge in the current window ?
Before April 01, 2019	No (it is fresh lodgement)	Yes	✓
Before April 01, 2019	Yes (it was rejected / returned earlier)	Yes	✓
Before April 01, 2019	Yes	No	X
Before April 01, 2019	No	No	X

Please note that the request(s) which are accompanied by original certificate(s) along with transfer deeds and relevant supporting documents will only be considered under this Special Window. The securities so transferred shall be mandatorily credited to the transferee only in demat mode and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer. Such securities shall not be transferred/lien-marked/pledged during the said lock-in period.

For any queries on the above matter or lodgement of documents, shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent at **MCS Share Transfer Agent Limited, (RTA of HEG Limited), 179-180, DSIDC Shed, 3<sup>rd</sup> Floor, Okhla Industrial Area, Phase - 1, New Delhi- 110020, Phone: 011- 41406149, 41406150, 41406151, Email: [helpdeskdelhi@mcsregistrars.com](mailto:helpdeskdelhi@mcsregistrars.com).**

**Important Note:** All shareholders are requested to ensure that their E-mail IDs/KYC details are updated with RTA of the Company or with their respective Depository Participants.

For HEG Limited  
(Vivek Chaudhary)  
Company Secretary (A-13263)

**Place: Noida (U.P.)**  
**Date : 17-02-2026**



**DYNAMATIC TECHNOLOGIES LIMITED**  
**Corporate Identification Number (CIN):** L72200KA1973PLC002308  
**Regd. Office:** JKM Plaza, Dynamatic Aerotropolis, 55, KIADB Aerospace Park, Bangalore-562 149.  
**Phone Number:** +91 80 2111 1223 / +91 80 2204 0535  
**Email ID:** [investor.relations@dynamatics.net](mailto:investor.relations@dynamatics.net); **website:** [www.dynamatics.com](http://www.dynamatics.com)

**NOTICE**

**SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL SHARES**

Please note that a Special Window for Transfer and Dematerialization of Physical Shares will remain open till February 4, 2027, pursuant to SEBI Circular No. - HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 dated January 30, 2026 ("SEBI CIRCULAR").

This facility of a special window is for lodgement of physical securities transfer and dematerialization ("demat") which were sold/purchased prior to April 01, 2019. Kindly refer to the matrix below with regards to the applicability of lodgement:

Execution Date of Transfer Deed	Lodged for transfer before April 01, 2019?	Original Security Certificate Available?	Eligible to lodge in the current window?
Before April 01, 2019	No (it is fresh lodgement)	Yes	Yes
Before April 01, 2019	Yes (it was rejected/returned earlier)	Yes	Yes
Before April 01, 2019	Yes	No	No
Before April 01, 2019	No	No	No

Kindly note that the request(s) which are accompanied by original certificate(s) along with transfer deeds and relevant supporting documents will only be considered under this special window. The securities so transferred shall be mandatorily credited to the transferee only in demat mode and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer. Such securities shall not be transferred/lien-marked/pledged during the said lock-in period.

For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, M/s. KFin Technologies Limited, Unit: Dynamatic Technologies Limited, Selenium Building, Tower B, Plot Nos. 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana India -500032. Tel: +91-40-67162222, 18003094001, email ID: [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com).

For Dynamatic Technologies Limited  
Sd/-  
Shivaram V  
Chief Legal Officer and Company Secretary

Place : Bangalore  
Date : 17<sup>th</sup> February 2026

